

कृष्णा पब्लिक स्कूल में आयोजित प्रदर्शनी में भाषा एवं सामाजिक-विज्ञान का अद्भुत संगम

कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई में भाषा एवं सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। जिसमें कक्षा पहली से दसवीं के विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया जहाँ एक से बढ़कर एक चार्टस, मॉडल्स एवं रोचक खेलों का अद्भुत संगम तथा विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बना।

इस प्रदर्शनी का अवलोकन करने शाला के डायरेक्टर श्री आलोक त्रिपाठी एवं शाला की प्राचार्या श्रीमती सविता त्रिपाठी, उपप्राचार्या श्रीमती रीता थॉमस, श्री के.के. शर्मा, श्रीमती मोनिका सेनगुप्ता, श्रीमती विनीता मैरॉल पहुँचे उन्होंने इस प्रदर्शनी का बारीकी से अवलोकन करते हुए टीचर्स एवं विद्यार्थियों की मुक्त-कंठ से प्रशंसा की।

प्रदर्शनी में कक्षा पहली एवं दूसरी के नन्हें-मुन्नं बच्चों ने भारतीय संस्कृति की विशेषता अनेकता एवं एकता के दर्शन करवाये। वहाँ विभिन्न राज्यों के अलग-अलग वेश-भूषा से सुसज्जित बच्चों की छवि देखते ही बनती थी। हिन्दी भाषा के अंतर्गत परी कथा एवं लोक कथा का समावेश देखने को मिला। एक ओर जहाँ कल्लू कुम्हार की उनाकोटि ने कैलाश पर्वत पर विराजमान शिव-पार्वती के दर्शन कराएँ वहीं दूसरी ओर सभी दर्शक परी-लोक में विचरण करते नजर आए। सम्पूर्ण वेदों एवं पुराणों की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती जिनके मुखरूपी कमल में सुंदर वचनों एवं नीतिश्लोको का असीम भंडार है। उन्हीं श्लोकों पर आधारित चार्टस एवं मॉडल्स छात्रों द्वारा बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की प्रदर्शनी में विभिन्न लेखकों एवं कवियों की साहित्य एवं कृतियों पर आधारित चार्टस एवं मॉडल्स बनाए गए जिसमें से चलचित्र मॉडल्स आकर्षण का केन्द्र था।

सामाजिक विज्ञान की प्रदर्शनी में एक ओर जहाँ भारत की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक विषयों को प्रदर्शित किया गया वहीं पर्यावरण सुरक्षा एवं जल संरक्षण हम सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य है इन विषयों को दर्शाते हुए आकर्षक चार्टस एवं मॉडल्स बनाए गए। इस प्रदर्शनी में अनेकता में एकता एवं देश की अखण्डता देखते ही बन रही थी एवं वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना को चरितार्थ कर रही थी।

सम्पूर्ण प्रदर्शनी को सफल बनाने में हिंदी, संस्कृत अंग्रेजी एवं सामाजिक विज्ञान के सभी विभागाध्यक्ष एवं टीचर्स का सराहनीय योगदान रहा।



Language & Humanities Exhibition at KPS, Nehru Nagar, Bhilai

To bring to fore the innermost thoughts and to give credence to one's imaginations is the aim of the exhibitions held in the schools. Today's students are full of ideas that wait to be tapped.

On 22nd April'17 KPS Nehru Nagar had organized an exhibition of Language and Humanities within the school premises. The Principal Madam Savita Triapthi inaugurated the exhibition. Manjuri, a student of class 8 captivated everyone with a self composed English song.

The English exhibits were categorized into games zone, poets and poetries, authors of great eminence and their works, books made by the students in form of journals. The displays were eye eatching and informative. Students waited with their displayed exhibitives to explain to the spectators of their endeavors.

The Hindi and Sanskrit Language exhibitions were made lively by live models and the chanting of shlokas on the mike by the students.

The Humanities section was set up very colourfully. The live models here were young kids who represented different states and spoke the language of the states they represented. The explicite models and charts made by students required very less explanations.

The Hindi and Sanskrit sections had models from Mahabharata which are worth mentioning.

Overall the exhibition was a resounding success which brought a glow of satisfaction not only to the Principal's face but also on the face of the students and teachers. For the winners of the games, the students had provided token gifts.

There was also a feedback book made by the students where parents left their feedback and impressions of the exhibition. Innovatively students had arranged for sticker smiles to stick beside each comment jotted down by the spectators present there. Like every year the exhibition concluded satisfactorily. The parents had come in large numbers to witness the versatility of their wards and applaud their capabilities.

Principal